



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 आश्विन 1938 (श0)  
(सं0 पटना 888) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना  
26 जुलाई 2016

सं0 22 नि0 सि0 (मोति0)-08-03/2013 (अंश-1)/1513—श्री दिलीप कुमार (आई0 डी0 4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर को नेपाल हितकारी योजना 2009-गंडक परियोजना में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 206 दिनांक 13.02.14 द्वारा निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी निर्धारित किया गया तथा निलम्बनोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 295 दिनांक 12.03.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त कार्यवाही के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 16266/15 दायर की गई। सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 16266/15 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 13.01.16 की प्रति श्री कुमार द्वारा 20.01.16 को समर्पित की गई। उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा श्री कुमार को दिनांक 20.05.16 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

तदालोक में श्री कुमार को दिनांक 20.05.16 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ववत् चलती रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जीउत सिंह,  
सरकार के उप-सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 888-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>